

## रेवरब्रेशन्स 2022 (एक अंतर्विद्यालयी कार्यक्रम)

**“शिक्षा मानव सफलता की कुंजी है और शिक्षा की जड़ें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर आधारित हैं।”**



नृत्य और गणित का अनूठा संगम

शिक्षा और शैक्षणिक प्रतियोगिताएँ मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियाँ हैं। एक शैक्षणिक संस्था में प्रतियोगिताओं का आयोजन छात्रों की दक्षता बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए बाल भारती विद्यालय, नोएडा ने छात्रों में निहित प्रतिभा और उनकी दक्षता को निखारने के लिए एक बार फिर सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को आधार मानकर तथा इनसे हर स्तर के बच्चों को परिचित कराने और इन्हीं लक्ष्यों से जुड़ी प्रतियोगिताओं को आयोजित कराने की अनूठी पहल की जैसे- लक्ष्य 3 के अंतर्गत मैथ-ओ-थॉन रिले, सेलेब्रेशन ऑफ लाइफ, फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज़, नृत्यगणित आदि। लक्ष्य 15 के अंतर्गत पिक्चरेस्क

केनवास, लक्ष्य 7 और 9 के अंतर्गत एकोनॉवेटर। लक्ष्य 6 को ध्यान में रखकर जलतरंग, लक्ष्य 4 के अंतर्गत डू इट द पॉड वे, श्लोकोच्चारण। लक्ष्य 5 के अंतर्गत वाद-विवाद, आंगिका, प्रकृति के रंग सुरों के संग आदि अनेक अंतर्विद्यालयी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली (एन०सी०आर) के लगभग अड़तालीस(48) विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। जिसमें से स्प्रिंगडेलस् विद्यालय धौलाकुआँ, दिल्ली ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु समग्र विजेता की ट्रॉफी प्राप्त की।

20 जुलाई से 30 जुलाई तक चले इस अंतर्विद्यालयी कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती आशा प्रभाकर जी द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं अदभुत प्रदर्शन की भरपूर प्रशंसा की गई तथा उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी गई और भविष्य में हर कदम पर सफलता की कामना की गई। इस प्रकार यह कार्यक्रम हर तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा और प्रतिभागी अपने साथ जीत की खुशी ही नहीं वरन् ज्ञान और अनुभव का अपार खजाना भी साथ ले गए।



जल है तो कल है



ऊर्जा उत्पादन का तकनीकी ज्ञान



गंगा की हृदय वेदना

कार्यक्रम की प्रमुख झाँकिया



श्लोकोच्चारण

सुनो प्रकृति की पुकार



एक कदम प्रकृति संरक्षण की ओर



ऊर्जा बचाने की पहल



जलवायु परिवर्तन की काव्यात्मक प्रस्तुति



आकृतियों का जोड़



नृत्य में छिपी ज्यामिति



नुकड़ से जागरूकता



शारीरिक लचक की अदभुत प्रस्तुति

सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के विभिन्न पहलुओं को अनेक गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करते बाल-कलाकार

प्रधानाचार्या  
श्रीमती आशा प्रभाकर